

# एपीनिक 53 में सामुदायिक चर्चा के लिए तीन नीतिगत प्रस्ताव

---

एपीनिक 53 में [खुली नीति बैठक](#) 02 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी। यहां चर्चा के लिए तीन नए नीतिगत प्रस्तावों का संक्षेप दिया गया है।

## **प्रॉप-142: ट्रांसफर नीतियों का एकीकरण**

यह प्रस्ताव वर्तमान में अलग-अलग प्रकार के संसाधनों (IPv4, IPv6, ASNs) के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी ट्रांसफर नीतियों को नीति दस्तावेज के एकमात्र अनुभाग में संयोजित करने का सुझाव देता है।

प्रस्तावकों का कहना है कि इसका उद्देश्य मौजूदा ट्रांसफर नीतियों को बदलना नहीं है, बल्कि जानकारी को एक ही अनुभाग में एकीकृत करना है।

## **प्रॉप-143: ASN से सेवार्थी तक**

एपीनिक की इंटरनेट नंबर संसाधन नीतियों की धारा 12.4 के तहत LIR को अपने सेवार्थियों के लिए एपीनिक/NIR से ASN का अनुरोध करने का अधिकार है। यह प्रस्ताव LIR अनुरोधों के माध्यम से प्राप्त ASN ट्रांसफर के लिए नए यूज़ केस की पहचान करने का सुझाव देता है।

## **प्रॉप-144: प्रायोगिक आवंटन नीति के तहत आरक्षित पूल**

प्रॉप-144 यह अनुरोध करता है कि एपीनिक प्रयोगात्मक आवंटन के लिए पांच वर्षों तक एक /21 IPv4 एड्रेस ब्लॉक आरक्षित करे।

इसके अलावा, यह प्रस्ताव वर्तमान नीति के पाठ को सदस्यता शुल्क अनुसूची के अनुरूप बनाने के लिए "IP resource application fee" शब्दों को "assessment of a Member's annual fee" शब्दों के साथ बदलने का सुझाव भी देता है।

## **भाग लें! अपनी बात सामने रखें**

अच्छी नीति समुदाय के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों की राय पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। अच्छी नीतियों को परामर्श और आम सहमति की एक खुली, पारदर्शी और नीचे-से-ऊपर जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया जाता है।

पॉलिसी एसआईजी [मेलिंग सूची की](#) सदस्यता लेकर या [एपीनिक 53 पॉलिसी एसआईजी](#) मंच के दौरान व्यक्तिगत या दूरस्थ रूप से भाग लेकर इन नीति प्रस्तावों के बारे में अपनी बात सामने रखें।